



A

10 Nov 2005

09:30 AM

Dharmsala

Model: Web-MyKundli

Order No: 121391101

## सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

लिंग \_\_\_\_\_: पुल्लिंग  
जन्म तिथि \_\_\_\_\_: 10/11/2005  
दिन \_\_\_\_\_: गुरुवार  
जन्म समय \_\_\_\_\_: 09:30:00 घंटे  
इष्ट \_\_\_\_\_: 06:42:01 घटी  
स्थान \_\_\_\_\_: Dharmsala  
राज्य \_\_\_\_\_: Himachal Pradesh  
देश \_\_\_\_\_: India

अक्षांश \_\_\_\_\_: 32:14:00 उत्तर  
रेखांश \_\_\_\_\_: 76:24:00 पूर्व  
मध्य रेखांश \_\_\_\_\_: 82:30:00 पूर्व  
स्थानिक संस्कार \_\_\_\_\_: -00:24:24 घंटे  
ग्रीष्म संस्कार \_\_\_\_\_: 00:00:00 घंटे  
स्थानिक समय \_\_\_\_\_: 09:05:36 घंटे  
वेलान्तर \_\_\_\_\_: 00:16:07 घंटे  
साम्पातिक काल \_\_\_\_\_: 12:23:16 घंटे  
सूर्योदय \_\_\_\_\_: 06:49:11 घंटे  
सूर्यास्त \_\_\_\_\_: 17:27:19 घंटे  
दिनमान \_\_\_\_\_: 10:38:07 घंटे  
सूर्य स्थिति(अयन) \_\_\_\_\_: दक्षिणायन  
सूर्य स्थिति(गोल) \_\_\_\_\_: दक्षिण  
ऋतु \_\_\_\_\_: हेमन्त  
सूर्य के अंश \_\_\_\_\_: 23:55:13 तुला  
लग्न के अंश \_\_\_\_\_: 27:02:46 वृश्चिक

#### अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति \_\_\_\_\_: वृश्चिक - मंगल  
राशि-स्वामी \_\_\_\_\_: कुम्भ - शनि  
नक्षत्र-चरण \_\_\_\_\_: शतभिषा - 1  
नक्षत्र स्वामी \_\_\_\_\_: राहु  
योग \_\_\_\_\_: ध्रुव  
करण \_\_\_\_\_: कौलव  
गण \_\_\_\_\_: राक्षस  
योनि \_\_\_\_\_: अश्व  
नाड़ी \_\_\_\_\_: आद्य  
वर्ण \_\_\_\_\_: शूद्र  
वश्य \_\_\_\_\_: मानव  
वर्ग \_\_\_\_\_: मार्जार  
युँजा \_\_\_\_\_: अन्त्य  
हंसक \_\_\_\_\_: वायु  
जन्म नामाक्षर \_\_\_\_\_: गो-गोपाल  
पाया(राशि-नक्षत्र) \_\_\_\_\_: लौह - ताम्र  
सूर्य राशि(पाश्चात्य) \_\_\_\_\_: वृश्चिक

## पंचांग

दादा का नाम \_\_\_\_\_ :  
पिता का नाम \_\_\_\_\_ :  
माता का नाम \_\_\_\_\_ :  
जाति \_\_\_\_\_ :  
गोत्र \_\_\_\_\_ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1927	कार्तिक	19
पंजाबी	संवत : 2062	कार्तिक	25
बंगाली	सन् : 1412	कार्तिक	24
तमिल	संवत : 2062	आइपसी	25
केरल	कोल्लम : 1181	तुलम	25
नेपाली	संवत : 2062	कार्तिक	25
चैत्रादि	संवत : 2062	कार्तिक	शुक्ल 9
कार्तिकादि	संवत : 2062	कार्तिक	शुक्ल 9

### पंचांग


सूर्योदय कालीन तिथि \_\_\_\_\_ : 9  
तिथि समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 16:17:25  
जन्म तिथि \_\_\_\_\_ : 9  
सूर्योदय कालीन नक्षत्र \_\_\_\_\_ : धनिष्ठा  
नक्षत्र समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 06:53:57 घंटे  
जन्म योग \_\_\_\_\_ : शतभिषा  
सूर्योदय कालीन योग \_\_\_\_\_ : ध्रुव  
योग समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 21:58:44 घंटे  
जन्म योग \_\_\_\_\_ : ध्रुव  
सूर्योदय कालीन करण \_\_\_\_\_ : कौलव  
करण समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 16:17:25 घंटे  
जन्म करण \_\_\_\_\_ : कौलव  
भयात \_\_\_\_\_ : 06:30:07  
भभोग \_\_\_\_\_ : 56:33:33  
भोग्य दशा काल \_\_\_\_\_ : राहु 15 वर्ष 11 मा 4 दि

### घात चक्र


मास \_\_\_\_\_ : चैत्र  
तिथि \_\_\_\_\_ : 3-8-13  
दिन \_\_\_\_\_ : गुरुवार  
नक्षत्र \_\_\_\_\_ : आर्द्रा  
योग \_\_\_\_\_ : गण्ड  
करण \_\_\_\_\_ : किंस्तुघ्न  
प्रहर \_\_\_\_\_ : 3  
वर्ग \_\_\_\_\_ : मूषक  
लग्न \_\_\_\_\_ : मिथुन  
सूर्य \_\_\_\_\_ : वृष  
चन्द्र \_\_\_\_\_ : धनु  
मंगल \_\_\_\_\_ : मिथुन  
बुध \_\_\_\_\_ : वृष  
गुरु \_\_\_\_\_ : कर्क  
शुक्र \_\_\_\_\_ : सिंह  
शनि \_\_\_\_\_ : मेष  
राहु \_\_\_\_\_ : कन्या

# जन्म कुण्डली

## लग्न कुण्डली



## चन्द्र कुण्डली



## लग्न कुण्डली और दशा

### लग्न कुंडली

रा	मं		
चं			श
शु	बु ल	गु सू	के

### लग्न कुंडली

	मं	रा
		चं
श		
के	सू गु	शु ल बु

विंशोत्तरी  
राहु 15वर्ष 11मा 4दि  
राहु

10/11/2005

16/10/2123

राहु	15/10/2021
गुरु	15/10/2037
शनि	15/10/2056
बुध	15/10/2073
केतु	15/10/2080
शुक्र	16/10/2100
सूर्य	16/10/2106
चन्द्र	16/10/2116
मंगल	16/10/2123

योगिनी  
धान्या 2वर्ष 7मा 26दि  
सिद्धा

07/07/2023

07/07/2030

सिद्धा	15/11/2024
संकटा	07/06/2026
मंगला	17/08/2026
पिंगला	06/01/2027
धान्या	07/08/2027
भामरी	17/05/2028
भद्रिका	07/05/2029
उल्का	07/07/2030


## ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व	अ	राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न			वृश्चि	27:02:46	317:34:20	ज्येष्ठा	4	18	मंगल	बुध	गुरु	---
सूर्य			तुला	23:55:13	01:00:18	विशाखा	2	16	शुक्र	गुरु	बुध	नीच राशि
चंद्र			कुंभ	08:12:03	14:09:19	शतभिषा	1	24	शनि	राहु	राहु	सम राशि
मंगल	व		मेष	20:05:04	00:20:34	भरणी	3	2	मंगल	शुक्र	राहु	स्वराशि
बुध			वृश्चि	15:52:36	00:31:08	अनुराधा	4	17	मंगल	शनि	गुरु	सम राशि
गुरु			तुला	09:19:17	00:12:52	स्वाति	1	15	शुक्र	राहु	गुरु	शत्रु राशि
शुक्र			धनु	10:45:49	00:57:20	मूल	4	19	गुरु	केतु	शनि	सम राशि
शनि			कर्क	17:14:04	00:01:22	आश्लेषा	1	9	चंद्र	बुध	बुध	शत्रु राशि
राहु			मीन	19:14:11	00:01:18	रेवती	1	27	गुरु	बुध	केतु	सम राशि
केतु			कन्या	19:14:11	00:01:18	हस्त	3	13	बुध	चंद्र	बुध	शत्रु राशि
हर्ष	व		कुंभ	12:55:11	00:00:18	शतभिषा	2	24	शनि	राहु	बुध	---
नेप			मक	20:56:13	00:00:29	श्रवण	4	22	शनि	चंद्र	शुक्र	---
प्लूटो			वृश्चि	29:04:55	00:01:55	ज्येष्ठा	4	18	मंगल	बुध	शनि	---
दशम भाव			कन्या	12:23:52	--	हस्त	--	13	बुध	चंद्र	राहु	--


व - वकी स - स्थिर  
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त  
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 23:56:15


### लग्न-चलित



### चन्द्र कुंडली



### नवमांश कुंडली



## चलित तथा निरयण भाव चलित

### चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	वृश्चिक 14:36:17	वृश्चिक 27:02:46
2	धनु 14:36:17	मकर 02:09:48
3	मकर 19:43:19	कुम्भ 07:16:50
4	कुम्भ 24:50:21	मीन 12:23:52
5	मीन 24:50:21	मेष 07:16:50
6	मेष 19:43:19	वृष 02:09:48
7	वृष 14:36:17	वृष 27:02:46
8	मिथुन 14:36:17	कर्क 02:09:48
9	कर्क 19:43:19	सिंह 07:16:50
10	सिंह 24:50:21	कन्या 12:23:52
11	कन्या 24:50:21	तुला 07:16:50
12	तुला 19:43:19	वृश्चिक 02:09:48


### निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	वृश्चिक	27:02:46
2	मकर	00:30:47
3	कुम्भ	07:31:05
4	मीन	12:23:52
5	मेष	11:19:03
6	वृष	05:15:26
7	वृष	27:02:46
8	कर्क	00:30:47
9	सिंह	07:31:05
10	कन्या	12:23:52
11	तुला	11:19:03
12	वृश्चिक	05:15:26


### तारा चक्र

जन्म	सम्पत्	विपत्	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
शतभिषा	पू०भाद्रपद	उ०भाद्रपद	रेवती	अश्विनी	भरणी	कृतिका	रोहिणी	मृगशिरा
आर्द्रा	पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा	मघा	पू०फाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा
स्वाति	विशाखा	अनुराधा	ज्येष्ठा	मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा

### चलित कुंडली



### भाव कुंडली



## विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : राहु 15 वर्ष 11 मास 4 दिन

राहु 18 वर्ष 10/11/2005 15/10/2021	गुरु 16 वर्ष 15/10/2021 15/10/2037	शनि 19 वर्ष 15/10/2037 15/10/2056	बुध 17 वर्ष 15/10/2056 15/10/2073	केतु 7 वर्ष 15/10/2073 15/10/2080
राहु 28/06/2006	गुरु 03/12/2023	शनि 18/10/2040	बुध 13/03/2059	केतु 13/03/2074
गुरु 20/11/2008	शनि 15/06/2026	बुध 28/06/2043	केतु 10/03/2060	शुक्र 13/05/2075
शनि 27/09/2011	बुध 20/09/2028	केतु 06/08/2044	शुक्र 08/01/2063	सूर्य 18/09/2075
बुध 16/04/2014	केतु 27/08/2029	शुक्र 06/10/2047	सूर्य 15/11/2063	चंद्र 18/04/2076
केतु 04/05/2015	शुक्र 27/04/2032	सूर्य 17/09/2048	चंद्र 15/04/2065	मंगल 14/09/2076
शुक्र 04/05/2018	सूर्य 13/02/2033	चंद्र 19/04/2050	मंगल 13/04/2066	राहु 03/10/2077
सूर्य 29/03/2019	चंद्र 15/06/2034	मंगल 28/05/2051	राहु 30/10/2068	गुरु 09/09/2078
चंद्र 26/09/2020	मंगल 22/05/2035	राहु 03/04/2054	गुरु 05/02/2071	शनि 19/10/2079
मंगल 15/10/2021	राहु 15/10/2037	गुरु 15/10/2056	शनि 15/10/2073	बुध 15/10/2080

शुक्र 20 वर्ष 15/10/2080 16/10/2100	सूर्य 6 वर्ष 16/10/2100 16/10/2106	चंद्र 10 वर्ष 16/10/2106 16/10/2116	मंगल 7 वर्ष 16/10/2116 16/10/2123	राहु 18 वर्ष 16/10/2123 00/00/0000
शुक्र 14/02/2084	सूर्य 02/02/2101	चंद्र 17/08/2107	मंगल 14/03/2117	राहु 11/11/2125
सूर्य 13/02/2085	चंद्र 04/08/2101	मंगल 17/03/2108	राहु 01/04/2118	00/00/0000
चंद्र 15/10/2086	मंगल 10/12/2101	राहु 16/09/2109	गुरु 08/03/2119	00/00/0000
मंगल 15/12/2087	राहु 03/11/2102	गुरु 16/01/2111	शनि 16/04/2120	00/00/0000
राहु 15/12/2090	गुरु 23/08/2103	शनि 16/08/2112	बुध 13/04/2121	00/00/0000
गुरु 15/08/2093	शनि 04/08/2104	बुध 15/01/2114	केतु 09/09/2121	00/00/0000
शनि 15/10/2096	बुध 10/06/2105	केतु 16/08/2114	शुक्र 10/11/2122	00/00/0000
बुध 16/08/2099	केतु 16/10/2105	शुक्र 16/04/2116	सूर्य 17/03/2123	00/00/0000
केतु 16/10/2100	शुक्र 16/10/2106	सूर्य 16/10/2116	चंद्र 16/10/2123	00/00/0000

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल राहु 15 वर्ष 11 मा 5 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

## विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

<b>गुरु - शनि</b> <b>03/12/2023</b> <b>15/06/2026</b>	<b>गुरु - बुध</b> <b>15/06/2026</b> <b>20/09/2028</b>	<b>गुरु - केतु</b> <b>20/09/2028</b> <b>27/08/2029</b>	<b>गुरु - शुक्र</b> <b>27/08/2029</b> <b>27/04/2032</b>	<b>गुरु - सूर्य</b> <b>27/04/2032</b> <b>13/02/2033</b>
शनि 28/04/2024 बुध 06/09/2024 केतु 30/10/2024 शुक्र 02/04/2025 सूर्य 18/05/2025 चंद्र 03/08/2025 मंगल 26/09/2025 राहु 12/02/2026 गुरु 15/06/2026	बुध 11/10/2026 केतु 28/11/2026 शुक्र 15/04/2027 सूर्य 26/05/2027 चंद्र 03/08/2027 मंगल 21/09/2027 राहु 23/01/2028 गुरु 12/05/2028 शनि 20/09/2028	केतु 10/10/2028 शुक्र 06/12/2028 सूर्य 23/12/2028 चंद्र 21/01/2029 मंगल 09/02/2029 राहु 02/04/2029 गुरु 17/05/2029 शनि 10/07/2029 बुध 27/08/2029	शुक्र 06/02/2030 सूर्य 26/03/2030 चंद्र 15/06/2030 मंगल 11/08/2030 राहु 04/01/2031 गुरु 14/05/2031 शनि 15/10/2031 बुध 01/03/2032 केतु 27/04/2032	सूर्य 12/05/2032 चंद्र 05/06/2032 मंगल 22/06/2032 राहु 05/08/2032 गुरु 13/09/2032 शनि 29/10/2032 बुध 10/12/2032 केतु 27/12/2032 शुक्र 13/02/2033
<b>गुरु - चंद्र</b> <b>13/02/2033</b> <b>15/06/2034</b>	<b>गुरु - मंगल</b> <b>15/06/2034</b> <b>22/05/2035</b>	<b>गुरु - राहु</b> <b>22/05/2035</b> <b>15/10/2037</b>	<b>शनि - शनि</b> <b>15/10/2037</b> <b>18/10/2040</b>	<b>शनि - बुध</b> <b>18/10/2040</b> <b>28/06/2043</b>
चंद्र 26/03/2033 मंगल 23/04/2033 राहु 06/07/2033 गुरु 08/09/2033 शनि 25/11/2033 बुध 02/02/2034 केतु 02/03/2034 शुक्र 22/05/2034 सूर्य 15/06/2034	मंगल 05/07/2034 राहु 25/08/2034 गुरु 10/10/2034 शनि 03/12/2034 बुध 20/01/2035 केतु 09/02/2035 शुक्र 07/04/2035 सूर्य 24/04/2035 चंद्र 22/05/2035	राहु 01/10/2035 गुरु 26/01/2036 शनि 13/06/2036 बुध 15/10/2036 केतु 05/12/2036 शुक्र 30/04/2037 सूर्य 13/06/2037 चंद्र 25/08/2037 मंगल 15/10/2037	शनि 07/04/2038 बुध 10/09/2038 केतु 13/11/2038 शुक्र 15/05/2039 सूर्य 09/07/2039 चंद्र 08/10/2039 मंगल 11/12/2039 राहु 24/05/2040 गुरु 18/10/2040	बुध 06/03/2041 केतु 02/05/2041 शुक्र 13/10/2041 सूर्य 01/12/2041 चंद्र 21/02/2042 मंगल 20/04/2042 राहु 14/09/2042 गुरु 23/01/2043 शनि 28/06/2043
<b>शनि - केतु</b> <b>28/06/2043</b> <b>06/08/2044</b>	<b>शनि - शुक्र</b> <b>06/08/2044</b> <b>06/10/2047</b>	<b>शनि - सूर्य</b> <b>06/10/2047</b> <b>17/09/2048</b>	<b>शनि - चंद्र</b> <b>17/09/2048</b> <b>19/04/2050</b>	<b>शनि - मंगल</b> <b>19/04/2050</b> <b>28/05/2051</b>
केतु 22/07/2043 शुक्र 27/09/2043 सूर्य 17/10/2043 चंद्र 20/11/2043 मंगल 14/12/2043 राहु 12/02/2044 गुरु 06/04/2044 शनि 09/06/2044 बुध 06/08/2044	शुक्र 14/02/2045 सूर्य 13/04/2045 चंद्र 19/07/2045 मंगल 24/09/2045 राहु 17/03/2046 गुरु 18/08/2046 शनि 17/02/2047 बुध 31/07/2047 केतु 06/10/2047	सूर्य 24/10/2047 चंद्र 22/11/2047 मंगल 12/12/2047 राहु 02/02/2048 गुरु 19/03/2048 शनि 13/05/2048 बुध 01/07/2048 केतु 21/07/2048 शुक्र 17/09/2048	चंद्र 05/11/2048 मंगल 08/12/2048 राहु 05/03/2049 गुरु 21/05/2049 शनि 21/08/2049 बुध 11/11/2049 केतु 14/12/2049 शुक्र 21/03/2050 सूर्य 19/04/2050	मंगल 12/05/2050 राहु 12/07/2050 गुरु 04/09/2050 शनि 07/11/2050 बुध 03/01/2051 केतु 27/01/2051 शुक्र 04/04/2051 सूर्य 25/04/2051 चंद्र 28/05/2051

## शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।


मूलांक	1
भाग्यांक	1
मित्र अंक	1, 4, 8, 9
शत्रु अंक	3, 5, 6
शुभ वर्ष	19,28,37,46,55
शुभ दिन	रवि, सोम, मंगल
शुभ ग्रह	सूर्य, चन्द्र, मंगल
मित्र राशि	वृष, तुला
मित्र लग्न	कुम्भ, कर्क, कन्या
अनुकूल देवता	कुबेर
शुभ रत्न	मूंगा
शुभ उपरत्न	संगमूंगी
भाग्य रत्न	मोती
शुभ धातु	ताम्र
शुभ रंग	रक्त
शुभ दिशा	दक्षिण
शुभ समय	सूर्योदय के बाद
दान पदार्थ	केसर, कस्तूरी, रक्तचन्दन
दान अन्न	मल्का
दान द्रव्य	घी

## रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
मोती	चंद्र	81%	सुख, भाग्योदय
नीलम	शनि	73%	भाग्योदय, पराक्रम, सुख
लहसुनिया	केतु	72%	धनार्जन, स्वास्थ्य
पुखराज	गुरु	69%	कम खर्च, धन, सन्तति सुख
मूंगा	मंगल	61%	शत्रु व रोग मुक्ति, स्वास्थ्य
गोमेद	राहु	53%	सन्तति सुख, कम खर्च
माणिक्य	सूर्य	47%	व्यय, व्यावसायिक हानि
पन्ना	बुध	31%	रोग, दुर्घटना, हानि
हीरा	शुक्र	6%	धन हानि, दाम्पत्य कष्ट, व्यय



### दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
राहु	15/10/2021	22%	69%	46%	31%	69%	19%	80%	66%	59%
गुरु	15/10/2037	55%	88%	67%	6%	81%	0%	73%	53%	72%
शनि	15/10/2056	22%	69%	46%	44%	69%	19%	86%	59%	59%
बुध	15/10/2073	55%	69%	61%	53%	69%	19%	73%	53%	72%
केतु	15/10/2080	22%	69%	67%	31%	69%	19%	61%	31%	84%
शुक्र	16/10/2100	22%	69%	61%	44%	69%	31%	80%	59%	78%
सूर्य	16/10/2106	61%	88%	67%	31%	75%	0%	61%	31%	59%
चंद्र	16/10/2116	55%	94%	61%	44%	69%	6%	73%	31%	59%
मंगल	16/10/2123	55%	88%	73%	6%	75%	6%	73%	31%	78%

## साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

### प्रथम चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	10/09/2009-15/11/2011	16/05/2012-04/08/2012	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	24/01/2020-29/04/2022	12/07/2022-17/01/2023	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	29/04/2022-12/07/2022	17/01/2023-29/03/2025	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	29/03/2025-03/06/2027	20/10/2027-23/02/2028	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	08/08/2029-05/10/2029	17/04/2030-31/05/2032	-----

### द्वितीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	22/10/2038-05/04/2039	13/07/2039-28/01/2041	06/02/2041-26/09/2041
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	06/03/2049-10/07/2049	04/12/2049-25/02/2052	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	25/02/2052-14/05/2054	02/09/2054-05/02/2055	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	14/05/2054-02/09/2054	05/02/2055-07/04/2057	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	27/05/2059-11/07/2061	13/02/2062-07/03/2062	-----

### तृतीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	30/08/2068-04/11/2070	-----	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	15/01/2079-12/04/2081	03/08/2081-07/01/2082	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	12/04/2081-03/08/2081	07/01/2082-20/03/2084	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	20/03/2084-21/05/2086	21/05/2086-08/02/2087	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	18/07/2088-31/10/2088	05/04/2089-19/09/2090	25/10/2090-21/05/2091

### शनि का ढैया फल

#### ढैया के प्रकार

अष्टम स्थानस्थ ढैया  
साढ़ेसाती प्रथम ढैया  
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया  
साढ़ेसाती तृतीय ढैया  
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया

#### फल

शुभ  
शुभ  
शुभ  
शुभ  
शुभ

#### क्षेत्र

धनार्जन  
पराक्रम  
सुख  
सन्तति  
दम्पति

## साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

**ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।**

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।  
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

**ॐ हों जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।**

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डन्ट बनाकर धारण करें।

**ॐ शं शनैश्चराय नमः ।**

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

## मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।  
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

\*\*\*\*\*

आपके जन्म समय में मंगल की स्थिति षष्ठ भाव में है। षष्ठ भाव शत्रु रोग, ऋण आदि का प्रतिनिधि भाव है अतः इस भाव में मंगल के प्रभाव से आप एक पराकमी पुरुष होंगे तथा शत्रु वर्ग को पराजित करने में समर्थ रहेंगे साथ ही शरीर में रोगाभाव रहेगा तथा सामान्यतया आप स्वस्थ ही रहेंगे। आप पराकमी एवं कठोर कार्यों को करने में रुचिशील रहेंगे। अतः आप पुलिस सेना या अन्य पराकमी विभागों में कार्यरत भी हो सकते हैं। जीवन में आपको ऋण अल्प मात्रा में ही लेना पड़ेगा तथा यदि लेना भी पड़ा तो आप इसे वापस देने में समर्थ रहेंगे जिससे मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा बनी रहेगी। साथ ही आप जीवन में इच्छित धन ऐश्वर्य एवं लाभ भी अर्जित करेंगे। आपके प्रभावी व्यक्तित्व से अन्य जन आपसे प्रभावित रहेंगे।

षष्ठ भाव से नवम भाव पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि के प्रभाव से आप धर्म या धार्मिक कार्यों पर अल्प मात्रा में ही रुचि रखेंगे साथ ही भाग्य की अपेक्षा आप कर्म पर अधिक विश्वास करेंगे। अतः आपके सांसारिक कार्यों की सिद्धि भाग्य बल की अपेक्षा परिश्रम पूर्वक कार्य करने से ही पूर्ण होगी। द्वादश भाव पर सप्तम दृष्टि के प्रभाव से आपका व्यय अधिक होगा। साथ ही यदा कदा आपको शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में व्यवधानों का भी सामना करना पड़ेगा परन्तु दाम्पत्य सुख का आप सामान्य रूप से उपभोग करने में समर्थ रहेंगे। लग्न पर मंगल की दृष्टि के प्रभाव से आप समय समय पर गर्मी या रक्त विकार संबंधी परेशानी की अनुभूति करेंगे लेकिन इसका कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं होगा। आप अपने कार्यों को उत्साह पराकम एवं परिश्रम से सम्पन्न करके उनमें इच्छित सफलताएं अर्जित करेंगे।

इस प्रकार षष्ठ भावस्थ मंगल की स्थिति आपके लिए सामान्यतया अच्छी रहेगी जिसके प्रभाव से आप धनऐश्वर्य से युक्त रहेंगे तथा अपने परिवार का आधुनिक परिवेश में

लालन पालन करने में समर्थ होंगे जिससे पारिवारिक सुख शान्ति बनी रहेगी तथा पारिवारिक जनों से आप पूर्ण सहयोग सुख एवं सम्मान प्राप्त होगा। अतः आप प्रसन्नता पूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे।



## कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।  
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग ।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलाब्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलाब्ध नामक योग बनता है।

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं। काल सर्प योग के उपाय इन कष्टों से राहत के लिये आवश्यक हो जाते हैं।

### जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मपत्रिका में काल सर्प योग विद्यमान नहीं है। अतः आपको इस योग के लिए शांति आदि की आवश्यकता नहीं है एवं आप पूर्ण रूप से सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

# पितृदोष विचार

## पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरांत पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

## पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

### पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

### पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

**ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।**

**नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥**

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें।

### **पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :**

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें। मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें। यह स्थान पितृ का स्थान माना जाता है।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं।

### **आपकी कुण्डली में पितृदोष**

- नवम् भाव में शनि स्थित है एवं राहु से दृष्ट है।
- लग्नेश षष्ठ भाव में स्थित है और उस पर शनि का प्रभाव है।
- त्रिक भाव का स्वामी लग्न में स्थित है और उस पर राहु का प्रभाव है।

आपकी कुण्डली में मंगल और शनि के कारण पितृदोष है।

आपकी कुण्डली में मंगल पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी पुरुष सदस्य द्वारा क्रोधवश किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ आपको नौकर, छोटे भाईयों को दान देना चाहिए।

आपकी कुण्डली में शनि पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी पुरुष सदस्य द्वारा दलित पर किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ भगवान रुद्र की पूजा करें। पीपल को जल चढ़ायें व पूजा करें। शम्मी की समिधा से हवन करें। बकरी व शनि प्रीतकारी वस्तुओं का दान करें। गरीब या जरूरतमंदों की सहायता के रूप में दान दें तथा कौए को खाने का पहला ग्रास खिलायें।

आपकी कुंडली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। संभव है कि किसी शुभकार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों।

### नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह स्रयंबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांड़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।

## ग्रह फल

### सूर्य

बारहवें भाव में सूर्य हो तो जातक वाम नेत्र तथा मस्तक रोगी, आलसी, उदासीन, परदेशवासी, मित्र-द्वेषी एवं कृश शरीर होता है।

तुला राशि में रवि हो तो जातक मन्दाग्नि रोगी, आत्मबलहीन, मलीन व्यभिचारी, परदेशाभिलाषी, नैतिकता की कमी एवं दूसरों से दबने वाला होता है।

आपके जन्म समय में सूर्य द्वादश भाव में स्थित है अतः आपके पिता का शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा एवं यदा कदा शारीरिक अस्वस्थता भी रहेगी। आपके प्रति उनके मन में स्नेह का भाव रहेगा। धन सम्पत्ति से वे प्रायः युक्त ही रहेंगे एवं जीवन में शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में आपको नित्य अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। दानशीलता की प्रवृत्ति से वे युक्त रहेंगे एवं आपको भी पुण्य कार्यों को करने की नित्य प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे।

आप का भी उनके प्रति मन में पूर्ण आदर का भाव रहेगा एवं समयानुसार उनकी आज्ञा का आप अनुपालन करते रहेंगे। आपके आपसी संबंध अच्छे होंगे परन्तु बीच बीच में कभी सैद्धान्तिक मतभेद भी उत्पन्न होंगे जिससे संबंधों में तनाव या कटुता आएगी लेकिन कुछ समय के उपरान्त स्वतः ही ठीक हो जाएगा। साथ ही आजीवन में हमेशा उनके सहयोग एवं सहायता के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगे एवं उन्हें किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं होने देंगे तथा समयानुसार आर्थिक या अन्य प्रकार की वांछित सहयोग भी प्रदान करेंगे।

### चन्द्र

चतुर्थभाव में चन्द्रमा हो तो जातक सुखी, मानी, दानी, उदार, रोगरहित, राजद्वेषवर्जित, कृषक, विवाह के पश्चात् भाग्योदयी, जलजीवी एवं बुद्धिमान होता है।

कुम्भ राशि में चन्द्रमा हो तो जातक, उन्मत्त, सूक्ष्मदेही, शिल्पी, नीति दक्ष, दूरदर्शी, विद्वान्, गुप्तविद्याओं में रुचि, अच्छा अन्तर्ज्ञान, साधना करने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति वाला एवं मध्यावस्था में संन्यास के प्रति झुकाव होता है।

आपके जन्म समय में चन्द्रमा की स्थिति चतुर्थ भाव में होने से माता का शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपके प्रति उनका प्रगाढ़ स्नेह रहेगा एवं जीवन में सर्वप्रकार की सुख सुविधाएं तथा अन्य सुखों को वे आपको प्रदान करेंगी। आपके मध्य मतभेद अल्प ही रहेंगे अतः परस्पर संबंध मधुर रहेंगे। साथ ही वाहनादि की प्राप्ति में भी वे आपको पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी तथा कभी भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करने देंगी।

आप भी उनका हमेशा हार्दि सम्मान करेंगे तथा उनकी आज्ञा एवं निर्देशों को मानने के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगे। साथ ही अपने जीवन काल में उनकी श्रद्धापूर्वक सेवा करेंगे तथा आवश्यक सुखसुविधाओं को भी प्रदान करेंगे। इस प्रकार आपके परस्पर संबंध मधुर एवं सुदृढ़ रहेंगे तथा जीवन को प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत करेंगे।

## मंगल

छठेभाव में मंगल हो तो जातक बलवान्, धैर्यशाली, प्रबल जठराग्नि, कुलवन्त, प्रचण्ड शक्ति, शत्रुहन्ता, ऋणी, दादरोगी, कोधी, पुलिस अफसर, व्रण और रक्तविकार युक्त एवं अधिकव्यय करने वाला होता है।

मेष राशि में मंगल हो तो जातक सत्यवक्ता, तेजस्वी, शूरवीर, नेता, साहसी, धनवान्, लोकमान्य, दानी एवं राजमान्य होता है।

आपके जन्म समय में मंगल छठे भाव में है अतः भाईयों का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा एवं समय समय पर वे शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे। धन सम्पत्ति का उनके पास अभाव नहीं रहेगा एवं आपके प्रति उनके मन में पूर्ण स्नेह एवं सम्मान का भाव रहेगा। जीवन में वे समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों तथा क्षेत्र में आपको अपना वांछित सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर रहेंगे एवं अपनी ओर से आपको किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं होने देंगे। साथ ही शत्रुवर्ग से भी वे आपकी नित्य रक्षा करने में तत्पर रहेंगे।

आपके मन में भी उनके प्रति पूर्ण स्नेह का भाव रहेगा एवं हमेशा उनको अपना सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर रहेंगे। आपकी आपसी संबंध मधुर रहेंगे तथा यदा कदा सामान्य रूप से मतभेद भी उत्पन्न होंगे जिससे संबंधों में क्षणिक तनाव की स्थिति रहेगी परन्तु कुछ समय के उपरान्त स्वतः ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही आप सुख दुःख में उनकी वांछित आर्थिक तथा अन्य प्रकार से भी सहयोग देंगे एवं यत्नपूर्वक उनकी भलाई करने में तत्पर रहेंगे।

## बुध

लग्न (प्रथम) में बुध हो तो जातक आस्तिक, गणितज्ञ, दीर्घायु, उदार-विनोदी, वैद्य, विद्वान्, स्त्रीप्रिय, मितव्ययी एवं मधुरभाषी होता है।

वृश्चिक राशि में बुध हो तो जातक व्यसनी, दुराचारी, मुखर्ष, ऋणी भिक्षुक, अनैतिक चरित्र, रतिक्रिया की अति करने वाला, गुप्तांगों के रोगों से पीड़ित, स्वार्थी एवं अपशब्द बोलने वाला होता है।

## गुरु

द्वादश भाव में गुरु हो तो जातक मितभाषी, योगाभ्यासी, परोपकारी, उदार, आलसी, सुखी, मितव्ययी, शास्त्रज्ञ, सम्पादक, लोभी, यात्री एवं दुष्ट चित्तवाला होता है।

तुला राशि में गुरु हो तो जातक सुन्दर, उदार, बली, योग्य धार्मिक, प्रवृत्ति, निष्पक्ष, बुद्धिमान्, व्यापार कुशल, कवि, लेखक, सम्पादक, बहुपुत्रवान् एवं सुखी होता है।

## शुक्र

द्वितीयभाव में शुक्र हो तो जातक भाग्यवान्, साहसी, समयज्ञ, मिष्टान्नभोजी, यशस्वी, लोकप्रिय, जौहरी, दीर्घजीवी, कवि, कुटुम्बयुक्त, सुखी एवं धनवान् होता है।

धनु राशि में शुक्र हो तो जातक धनी, बलशाली, स्वोपार्जित द्रव्य द्वारा पुण्य करने वाला, विद्वान्, सुन्दर, लोकमान्य, राज्यमान्य, सुखी घरेलू जीवन, उच्चपद की प्राप्ति एवं प्रभावशाली होता है।

## शनि

नवम भाव में शनि हो तो जातक धर्मात्मा, साहसी, प्रवासी, कृशदेही, भीरु, भ्रातृहीन, शत्रुनाशक रोगी वातरोगी, भ्रमणशील एवं वाचाल होता है।

कर्क राशि में शनि हो तो जातक, गरीब, कमसन्तान, बाल्यावस्था में दुखी, मातृरहित, प्राज्ञ, उन्नतिशील, विद्वान्, हठी एवं स्वार्थी होता है।

## राहु

पंचम भाव में राहु हो तो जातक शास्त्रप्रिय, कार्यकर्ता, भाग्यवान्, उदररोगी, मतिमन्द, कुल धननाशक, धनहीन, नीतिदक्ष एवं सन्तान के लिए अशुभ होता है।

मीन राशि में राहु हो तो जातक आस्तिक, कुलीन, शान्त, कलाप्रिय और दक्ष होता है।

## केतु

ग्यारहवें भाव में केतु हो तो जातक बुद्धिहीन, निजका हानिकर्ता, अरिष्टनाशक एवं वातरोगी होता है।

कन्या राशि में केतु हो तो जातक सदारोगी, मूर्ख, मन्दाग्निरोग एवं व्यर्थवादी होता है।

## दशा विश्लेषण

महादशा :- गुरु  
( 15/10/2021 - 15/10/2037 )

आपकी कुण्डली में गुरु की महादशा 15/10/2021 को शुरू और 15/10/2037 को समाप्त होगी। इसकी अवधि 16 वर्ष है।

आपकी जन्म कुण्डली में गुरु द्वादश भाव में स्थित है। द्वादश भाव, हानि और बाधा, फिजूलखर्च, व्यय, पारिवारिक अलगाव, सुदूर स्थानों की यात्रा, धोखाधड़ी और भाग्यहीनता, कैद, अस्पताल में भर्ती होना, धोखा, घोटाला, कलंक तथा गुप्त शोक, बार्थी आँख, शयन सुख, ऋण तथा विदेश प्रवास का द्योतक है। गुरु स्वभावतः एक शुभ ग्रह है जिसकी स्थिति द्वादश भाव में तथा दृष्टि चतुर्थ, षष्ठ तथा अष्टम भाव पर है और इन भावों पर यह शुभ प्रभाव डाल रहा है। यह 16 साल की अवधि आपके लिए उतार-चढ़ाव से युक्त होगी।

स्वास्थ्य :

महादशेश गुरु की दृष्टि द्वादश भाव से षष्ठ भाव अर्थात् शत्रु भाव या रोग भाव पर होने के फलस्वरूप आपको न तो कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या होने की संभावना है और न ही कोई बड़ी दुर्घटना जो आपको शारीरिक क्षति पहुँचा सके। आपका जीवन नियमित रहेगा।

अर्थ संपत्ति :

गुरु की अष्टम भाव अर्थात् अचानक उन्नति के भाव और मांगलिक कार्य के भाव (चतुर्थ और षष्ठ भावों के अतिरिक्त) तथा चतुर्थ भाव अर्थात् सुख स्थान पर दृष्टि के फलस्वरूप आपको चल संपत्ति में बढ़ोतरी करने का अवसर प्राप्त होगा तथा आप भोग-विलास की वस्तुओं पर खर्च करेंगे।

व्यवसाय :

गुरु द्वादश भाव में स्थित है तथा इस भाव को शक्तिशाली बना रहा है। यह हानि और खर्च तथा अलगाव आदि का भाव है। इसके फलस्वरूप आप जो भी व्यवसाय शुरू करेंगे आपको एक या अनेक कठिनाइयों या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपको अंतिम कदम सावधानीपूर्वक लेने की सलाह दी जाती है।

पारिवारिक जीवन :

आपका पारिवारिक जीवन उत्साहपूर्ण होगा तथा आपके जीवन साथी आपके साथ पूर्ण सहयोग करेंगे। आपके बच्चे आज्ञाकारी होंगे। परिवार में कुछ उदासी हो सकती है। आप अपने सुखी परिवार का आनन्द उठाएँगे।

**अंतर्दशा :- गुरु - शनि  
( 03/12/2023 - 15/06/2026 )**

आपकी बृहस्पति की महादशा 15/10/2021 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में दूसरी अंतर्दशा शनि की होगी जिसकी अवधि 2 वर्ष 6 मास 12 दिन रहेगी। आपके लिए यह 03/12/2023 को प्रारंभ होकर 15/06/2026 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी शनि आयु, संन्यास और दार्शनिक स्वभाव का कारक है।

इस अवधि में आप भाग्यशाली और धनी बनेंगे। दूरस्थ स्थान की यात्रा हो सकती है। संन्यास में रुचि हो सकती है। धर्म और दर्शनशास्त्र में मन लग सकता है। पिता से संबंध मधुर होंगे। शिक्षा उत्तम होगी। संतान से सुख मिलेगा। पारिवारिक जीवन उत्तम होगा। दान-धर्म की संस्थाओं से जुड़ सकते हैं।

आपके जीवनसाथी सब कार्यों को उत्साह और साहस से पूर्ण करेंगे। आपके पिता के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। माता को स्पर्धियों पर सफलता मिलेगी। आपके भाई-बहनों के लिए साझेदारी से लाभ, व्यापार में लाभ, अचल संपत्ति और वाहनसुख, निवेश से लाभ का संकेत है।

आपकी संतान की शिक्षा पूर्ण हो सकती है, परीक्षा में सफलता मिलेगी। अगर वे कार्यरत हैं तो निवेश से लाभ होगा।

अगर आप सेवारत हैं तो कार्यालय उत्तम होगा, प्रोन्नति होगी। परामर्शदाताओं के खर्चे बढ़ सकते हैं, यात्राएं होंगी। व्यापारियों को जनसंपर्क से लाभ होगा।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुभत्व में वृद्धि के लिए शनि मंत्र का जाप करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः

**अंतर्दशा :- गुरु - बुध  
( 15/06/2026 - 20/09/2028 )**

आपके लिए बृहस्पति की महादशा 15/10/2021 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में तृतीय अंतर्दशा बुध की होगी, जिसकी अवधि 2 वर्ष 3 मास 6 दिन होगी। आपके लिए यह 15/06/2026 को प्रारंभ होकर 20/09/2028 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बुध बुद्धि, स्मृति और हाजिरजवाबी का कारक है।

इस अवधि में आपकी ज्ञान-विज्ञान में रुचि होगी; मानसिक क्षमता तीव्र रहेगी। विद्वानों की संगत में रुचि होगी। ज्योतिष, धर्म, गणित और कविता में दिलचस्पी होगी। अपने कार्यों को सुनियोजित करेंगे; सफलता प्राप्त होगी। यात्रा और सैर-सपाटे में मन लगेगा। प्रतिभा के कारण प्रशंसित होंगे; परिश्रम से सफलता मिलेगी। विवाह हो सकता है। व्यापार और निवेश में लाभ होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

आपके जीवनसाथी का धनार्जन उत्तम होगा। आपके पिता को निवेश और शेयरों में

लाभ हो सकता है। माता को कार्यों में सफलता मिलेगी, धनी बनेंगी। आपके भाई-बहनों के लिए नये मित्र, सम्मान, संतुष्टि, उत्तम शिक्षा और कार्यों की पूर्णता के संकेत हैं।

आपकी संतान की शिक्षा उत्तम होगी, उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल सकता है। अगर वे कार्यरत हैं तो यात्रा हो सकती है, जनसंपर्क बढ़ेगा।

अगर आप सेवारत हैं तो उच्चपद प्राप्त कर सकते हैं। परामर्शदाताओं की नींव मजबूत होगी, धनी बनेंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा मगर अत्यधिक उत्तेजना से बचें। शुभत्व में वृद्धि के लिए समाजसेवी संस्था में दान दें।

**अंतर्दशा :- गुरु - केतु  
( 20/09/2028 - 27/08/2029 )**

आपके लिए बृहस्पति की महादशा 15/10/2021 प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में चौथी अंतर्दशा केतु की होगी जिसकी अवधि 11 मास 6 दिन होगी। आपके लिए यह 20/09/2028 को प्रारंभ होकर 27/08/2029 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी केतु मोक्ष और शल्य चिकित्सा का कारक है।

इस अवधि में आपके सम्मान में वृद्धि होगी, प्रसिद्ध बनेंगे। सब सुख-साधन उपलब्ध होंगे, धनी बनेंगे। बहुत लोग अप्रत्याशित सहायता करेंगे। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनेगी। अपारंपरिक माध्यम से धनागम हो सकता है। बड़े भाई-बहनों से संबंध मधुर होंगे। संतान से सुख मिलेगा। अध्यात्म में रुचि हो सकती है।

आपके जीवनसाथी को निवेश से लाभ हो सकता है। आपके पिता के धन और सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। माता को साझेदार के माध्यम से धनार्जन होगा।

आपके भाई-बहनों के लिए लंबी यात्रा, सुनियोजित कार्य, उत्तम स्वास्थ्य और अध्यात्म में रुचि का संकेत है।

आपकी संतान को सामूहिक गतिविधियों में लाभ होगा। अगर वे कार्यरत हैं तो साझेदारी से लाभ होगा।

अगर आप सेवारत हैं तो कार्यालय उत्तम होगा। परामर्शदाताओं की आय बढ़ेगी। व्यापारियों के लाभ में वृद्धि होगी।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। बायें कान, पैर और उदर की मामूली व्याधि हो सकती है। शुभत्व में वृद्धि के लिए गणेशजी की उपासना करें।

**अंतर्दशा :- गुरु - शुक्र  
( 27/08/2029 - 27/04/2032 )**

आपके लिए बृहस्पति महादशा 15/10/2021 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में पांचवी अंतर्दशा शुक्र की होगी, जिसकी अवधि 2 वर्ष 8 मास रहेगी। आपके लिए यह 27/08/2029 को प्रारंभ होकर 27/04/2032 के समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी शुक्र सौंदर्य, सुख और कला का कारक है।

इस अवधि में आपके पास पर्याप्त सुख के साधन उपलब्ध रहेंगे। धन का संचय होगा। स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे। सुंदर वस्तुएं क्रय करेंगे। प्रसिद्धि मिलेगी। हर प्रकार से यह समय भाग्यशाली रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अध्यात्म में रुचि हो सकती है। वसीयत से धनलाभ हो सकता है। मित्रों से संबंध मधुर रहेंगे।

आपके जीवनसाथी को अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। आपके पिता को स्पर्धियों पर सफलता मिलेगी। माता सफल होंगी। आपके भाई-बहनों के लिए धन का संचय, शत्रुओं पर विजय, समृद्धि, उत्तम शिक्षा, अचल संपत्ति और सौभाग्य का संकेत है।

आपकी संतान लोकप्रिय और सफल रहेगी। अगर वे कार्यरत हैं तो आय अच्छी होगी, जीवन सुखी रहेगा, पर्याप्त मित्र होंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो प्रोन्नति होगी, भाग्य चमकेगा। परामर्शदाताओं का धनलाभ उत्तम होगा, प्रभाव में वृद्धि होगी, उच्चपद प्राप्त करेंगे। व्यापारियों की यात्राएं हो सकती हैं, अप्रत्याशित लाभ संभव है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। नेत्रों का ध्यान रखें। शुभत्व में वृद्धि के लिए कन्याओं को खीर खिलाएं।